Ref: HIPP/SE/2023-24/26

June 09, 2023

Corporate Relationship Department **BSE Limited** Phiroze Jeejeebhoy Towers, 25th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001

Listing Department National Stock Exchange of India Ltd. 5th Floor, Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400051

Scrip Code: NSE

HONDAPOWER

BSE

522064

Sub: Newspaper advertisement regarding transfer of shares to IEPF

Dear Sir/Madam.

In accordance with Regulation 47 of SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, we enclose copies of the notice published in 'Financial Express'-All India Editions and 'Jansatta'-Delhi Edition on Friday, June 09, 2022, in connection with the shares to be transferred to the Investor Education and Protection Fund pursuant to Section 124(6) of Companies Act, 2013 read with Rule 6 of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016.

You are requested to take the aforesaid information on record and notify your constituents accordingly.

Thanking you.

Yours truly,

For Honda India Power Products Limited,

Sunita Ganioo

Company Secretary and Compliance Officer

Noida

Encl: as above

÷(0)(1)

Honda India Power Products Limited

Head Office & Works:

Plot No. 5, Sector-41, (Kasna)

Greater Noida Industrial Development Area, Distt. Gautam Budh Nagar (U.P.) Pin-201310

Tel.: +91-120-2590 100 Fax: +91-120-2590 350

Website: www.hondaindiapower.com CIN: L40103DL2004PLC203950 E-mail: ho.mgt@hspp.com

EV body seeks ₹3,000-crore rehab fund

SWARAJ BAGGONKAR Mumbai, June 8

THE SOCIETY OF Manufacturers of Electric Vehicles (SMEV) has written to the minister of finance, proposing the creation of a ₹3,000-crore rehabilitation fund to revive and sustain operations of vehicle makers who have been badly affected by the recent FAME subsidy blocks.

The industry body has maintained that the total amount of subsidies withheld and still due to various electric two-wheeler (E2W) makers

amount to over ₹1,200 crore. The industry has been awaiting the funds for more than 18 months exclusive of the interest amount.

Sohinder Gill, director general, SMEV said, "The cumulative effect of the subsidy blockade, the claim on older subsidies and the refusal to allow future sales has been devastating on startups and first movers in the E2W segment."

While subsidies have been blocked for several of the companies, the government has also demanded return of ear-

WHAT INDUSTRY SAYS



lier subsidies from others

who are majorly from the

Companies continued to

startup pack.

Total subsidies withheld and due to E2W makers amount to over ₹1,200 crore

■ Industry has

been awaiting the funds for more than 18 months

provide subsidies to customers long after subsidy payments were stopped by the government, causing a drain on finances. "Many of these companies

will not be able to come out of the financial stress. In fact, their post-resolution existence is also a matter of time. It is therefore our considered, sincere, suggestion that the ministry of finance may consider the rehabilitation fund to help the affected companies sustain for the next year or two at least," Gill added.

"If we add the man-days lost, opportunity market share depletion and the reputational damage collectively the figure would

cross the ₹30,000 crore mark on a conservative estimate up to now," a statement from SMEV said.

SMEV further claimed that the worst impact has been on the investor community, which has become extremely averse to the sector owing to the frequent inimical actions against original equipment manufacturers.

Banks, too, have been unwilling to extend credit in fact; banks are suffering collateral damage since companies are unable to service loans under the circumstances.

Delhivery plea: NCLT seeks Go First reply

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, June 8

INSOLVENCY TRIBUNAL **NCLT** on Thursday issued a notice to the Interim Resolution Professional (IRP) of crisishit airlines Go First over a plea filed by Delhivery.

Delhivery had alleged Go First's insolvency process as a sham and said the airline took payments of ₹57 lakh from Delhivery on May 2, the day it filed for insolvency, despite knowing that it was filing for voluntary insolvency.

Atwo-member bench of the National Company Law Tribunal (NCLT) directed the IRP to file a reply within two weeks and listed the matter on July 24 for the next hearing.

Delhivery has requested the tribunal to allow it as an intervener in the company's petition and its lawyers contended that the initiation of CIRP was "fraudulent and malicious"

India's GCC market to hit \$110 bn by 2030, says EY report

is also expected

to hire around

2.6 million people

in India by the

end of 2030, the

report said

SAMEER RANJAN BAKSHI Bengaluru, June 8

INDIA'S GLOBAL CAPABIL-**ITY** Centre (GCC) market size is set to increase by 144% to \$110 billion by 2030, from

the current \$45 billion, said a

report released on Thursday.

The GCC industry is also expected to hire around 2.6 million people in India by the end of 2030, the report by consultancy

By 2030, India will likely have 2,400 GCCs and that number can potentially

firm EY said.

increase to 2,550. The number of new GCC set-ups every year can jump up to 115 from the current 70 per annum, it said.

The Indian GCC industry is expected to have a headcount of over 4.5 million people by 2030, compared to the current base of about 1.9 million. According to the report, titled 'Future of GCCs in India - A Vision 2030', India has an

excellent opportunity for GCCs and startups to work together as it accelerates the

entire innovation journey. GCCs are captive centres of global companies that are headquartered outside India. They handle operations like

R&D, back-office, customer support and IT support to enhance the pro-The GCC industry ductivity of their parent compa-

> Arindam Sen partner and GCC sector lead - technology, media and entertainment and telecommu

nications, EY

India said, "GCCs

are expanding their operations across different cities in India, while exploring new areas of service and hiring tal ent with niche skill-sets. With the increasing number of global leadership roles based in India, GCCs will continue to move up the value chain through innovation, product development and digital transformation."

Zomato in sweet spot as stock nears IPO price

SIDDHANT MISHRA Mumbai, June 8

ZOMATO HAS GIVEN a boost to investor appetite, delivering 11.6% returns in the past one week. It has recorded five straight sessions of gains, with market capitalisation surging by ₹6,760 crore.

On Thursday, the stock closed at ₹75.80, just shy of its issue price of ₹76. It touched ₹76.30 — a fresh 52-week high — in intra-day trade, before settling ₹0.20 lower than its issue price. As of Thursday, its market value was ₹65,030 crore.

Zomato had hit the market at a listing price of ₹115 on July 23, 2021 — a 51.3% premium to its issue price. It closed with a listing day gain of 65.6% at ₹125.85. It is still 52.5% below its all-time high of ₹159.75 attained on November 25, 2021.

"The food delivery business is still at a nascent stage with long runway for growth. With dominant market share and strong growth in the food delivery business and Hyperpure, we expect Zomato to report a strong 36% revenue CAGR over FY23-25.We further expect Zomato to break even in Q4FY24, in line with the management guidance," said a May 22 report by Motilal Oswal.

ZOMATO Listing date July 23, 2021 Issue price (₹) 76.0 200 Listing price (₹) 115.0 125.85 rice as on June 8, 2023 **75.8** % chg from issue price -0.26 80 75.80 % chg: 11.60 July 23, 2021

CEO/COO positions have helped moderate concerns on high attrition at the senior leadership level. It has maintained a 'buy' rating with a target price of ₹80.

Zomato's net loss narrowed to ₹188 crore from ₹360 crore last year in Q4. Consolidated revenue rose almost 70% ₹2,056 crore on a year-on-year basis.

Revenue growth was driven by Blinkit's strong showing — 21% sequential growth though growth for the food delivery business was modest at 2%, owing to adverse seasonality and macro impact, said the Motilal Oswal report.

The management had guided for a strong momentum in O1FY24, and remains bullish

The brokerage said three on long-term prospects. As senior promotions to the regards Hyperpure — its platform that provides high-quality ingredients to restaurants — the firm expects consistent growth and reduction in losses thanks

> steady rise in the past two weeks, with resistance seen near the 76-zone and indication of getting into the overbought zone. One can consider support near 70, with further targets anticipated for 82-84 levels once a decisive breach above 76 is established. Our view gets negated if a decisive breach below 70 is witnessed after which we can expect a further slide," said Vaishali Parekh, vice president - technical research, Prabhudas Lilladher.

Air India to refund full fare for diverted San Francisco flight

TATA GROUP-LED AIR India said on Thursday that it will fully refund the ticket fare of passengers on board the Delhi-San Francisco flight, which landed in the Russian city of Magadan due to a technical

Flight AI173D ferrying 216 passengers and 16 crew had to divert to Magadan on Tuesday. It landed in San Francisco on Thursday.

gers, the airline's chief customer experience officer & global head of airport operations Rajesh Dogra said that Air India will fully refund the fare and also provide a voucher for future travel. "Although we cannot change the past, I trust that this gesture conveys our sincere regrets for the disruption and

He said the aircraft encountered a technical issue, whereby



the pilots received an indication of low oil pressure in one engine. "Out of caution, they elected to highest priority throughout."

experience was not what we aspire to offer".

Crompton

Crompton Greaves Consumer Electricals Limited Registered & Corporate Office: Tower 3, 1" Floor, East Wing, Equinox Business Park,

BS Marg, Kurla (West), Mumbel 40007 Tel.: +91-22-6167 8499 Fax: +91-22-6167 8383

NOTICE OF THE 9" ANNUAL GENERAL MEETING TO

OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ("OAVM") Notice is hereby given that the 9" Annual General Meeting ("AGM") of the Company is scheduled to be held on Saturday, July 22, 2023 at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM" facility in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act,

BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC")/

2013 and the rules made thereunder, read with General Circular Nos. 20/2020 dated May 5, 2020, 10/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), and Circular Nos SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023, issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), along with other applicable Circulars issued in this regard by MCA & SEBI, to transact the business that will be set forth in the Notice of the Meeting. In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the AGM and Integrated Annual Report for the financial year 2022-23 will be sent to all the Members whose email IDs are registered with the Company, Depository Participant(s) ('DPs")/ Registrar and Share Transfer Agent. In case

Company by writing at crompton investorrelations@crompton.co.in mentioning their Folio No. / DP ID and Client ID. The Integrated Annual Report of the Company along with Notice of AGM will also be made available on the website of the Company at https://www.crompton.co.in/investors/annualreport/ the website of BSE Limited www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of National Securities Depositories Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com Members can join and participate in the AGM through VC/ OAVM facility only. The instructions for joining the AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-Voting system during the

iny Member is desirous of obtaining physical copy of the Integrated Annual

Report for the financial year 2022-23, he/ she may send a request to the

AGM are provided in the Notice of AGM. Members participating through VC/ OAVM facility shall be counted for the purpose reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. Members holding shares in dematerialized mode, whose e-mail addresses are not registered with their Depository, are requested to register their email address for receipt of Notice of the AGM, Integrated Annual Report and login

details for joining the AGM through VC/ OAVM facility including e-Voting with their Depository only. The registered e-mail address will also be used for sending future communications. Further, Members are requested to notify any change in address or bank account details to their respective DPs. Members holding shares in physical mode who have not registered their e-mail addresses with the Company can obtain Notice of the AGM. Integrated Annual

Report and/ or login details for joining the AGM through 'VC/ OAVM facility including e-Voting, by providing a duly signed request letter with Folio No. name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), self-attested scanned copy of PAN and Aadhar by e-mail to Members whose shareholding is in physical made are requested to opt for the

Electronic Cleaning System (ECS) mode to receive dividend on time in line with the Circulars. We urge shareholders to utilize the ECS for receiving dividends. Members holding shares in physical form are advised to update their PAN KYC (e-mail address, mobile number, bank account, signature etc.) and Nomination details as mandated under vide SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated March 16, 2023 to avoid freezing of their folios on or after October 1, 2023 Members may note that the Board of Directors at their meeting held on Friday

May 19, 2023, has recommended a final dividend of ₹3 per equity share subject to the approval of the Members at this ensuing AGM. The final dividend, if approved, by the Members will be paid on or after Tuesday, July 25, 2023 but within 30 days. from the date of AGM, to the Members whose names appears in the Register of Members or Register of Beneficial Owners, as the case may be, as on the Record Date, i.e. Friday, July 7, 2023.

The final dividend will be paid electronically through various online transfer modes to those Members who have updated their bank account details. For Members who have not updated their bank account details, dividend warrants/ demand drafts/ cheques will be sent to their registered address. In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the

Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015; the Company is providing the facility to its Members to exercise their right to vote by electronic means on any or all of the businesses specified in the Notice convening the AGM of the Company through e-Voting services of NSDL. Members will have an opportunity to cast their vote remotely on the businesses as set out in the Notice of AGM through e-Voting system The record date to determine eligibility to cast votes by electronic voting is

Friday, July 7, 2023. The e-voting period commences on Monday July 17, 2023 at 9.00 a.m. IST and will end on Friday, July 21, 2023 at 5.00 p.m. IST for all the Members, whether holding shares in physical form or in dematerialized form. The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Remote e-Voting shall not be allowed beyond the said The Members who will be present in the AGM through VC/ OAVM facility and

have not cast their vote through remote e-Voting can exercise their voting rights during the AGM. A Member may participate in the meeting even after exercising his right to vote through remote e-Voting but shall not be allowed to vote again during the meeting. A person who has become a Member of the Company after the Notice is being sent but on or before the record date for e-Voting, i.e. Friday, July 7, 2023, may

obtain the Login ID and Password by following the instructions as mentioned in Notice of the AGM or sending a request at evoting@nsdl.co.in. In case of any query regarding voting, Members may contact Mr. Anubhav Saxena, Deputy Manager, NSDL at 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send request at anubhav@nsdl.co.in/evoting@nsdl.co.in The Board of Directors have appointed Mr. Saurabh Agarwal, failing him, Ms. Deepti Kulkarni, Designated Partners of M/s MMJB & Associates LLP,

Practicing Company Secretaries as a Scrutinizer to scrutinize the e-Voting process in a fair and transparent manner. Members will be able to attend the AGM through VC/ OAVM or view the live

webcast of AGM provided by NSDL at https://www.evoting.nsdl.com.by using their e-Voting login credentials. in case of any guenes relating to e-Voting, you may refer to the FAQs for Members and e-Voting user manual for Members available at the download

section at https://www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send request at evoting@nsdl.co.in The integrated Annual Report, Notice including the e-Voting procedure and the other relevant documents, will be available on the Company's website at

www.crampton.co.inforInspection. The above information is being issued for the information and benefit of all the

Members of the Company and is in Compliance with the MCA Circulars By order of the Board of Directors

For Crompton Greaves Consumer Electricals Limited

Rashmi Khandelwal

ACS - 28839

Place: Mumbai Company Secretary & Compliance Officer

Date: June 9, 2023

New Delhi

BAJAJ FINSERV LIMITED

INFORMATION REGARDING 16TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/OTHER **AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM)**

of the Company is scheduled to be held on Thursday, 27 July 2023 at 12:15 p.m. through VC/OAVM without physical presence of the members at a common venue, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act') and rules framed thereunder, read with MCA circulars issued on 28 December 2022 and/or SEBI circular issued on 5 January 2023 in this regard and other connected circulars (hereinafter collectively called as 'the Circulars'), to transact the business as set out in the Notice convening the 16th AGM ('e-AGM').

Report for FY2023, will be sent to all the members whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent viz., KFin Technologies Ltd., ('KFin')/Depository Participants ('DPs'). The physical copy of Notice and Annual Report will also be sent to members at their registered address who request for the same.

The Notice of e-AGM will be made available on the following:

- https://www.bajajfinserv.in/finserv-investor-relations-annual-reports
- 2. Website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and
- 3. KFin website: https://evoting.kfintech.com

Manner of registering/updating e-mail address and/or bank account details:

registered/updated their e-mail address and/or bank account details for receiving dividends directly in their bank accounts through electronic clearing service (ECS) or any other means are requested to update their aforesaid details by submitting Form ISR-1 duly filled and signed along with requisite supporting documents to KFin at Unit: Bajaj Finserv Ltd., Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India

Company at https://www.bajajfinserv.in/finserv-shareholdersinformation-listing-on-stock-exchange

Dematerialized holding

Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered/updated their aforesaid details are requested to register/update the same with the respective DPs.

Manner for casting vote(s) through e-voting:

members to cast their vote on all resolutions set out in the Notice of the e-AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system at the e-AGM ('e-voting'). Detailed procedure for joining the e-AGM and remote e-voting/e- voting has been provided in the Notice of e-AGM.

at the toll-free number 1-800-309-4001.

Sd/-

Uma Shende Company Secretary

For Bajaj Finserv Limited

Place: Pune Date: 08 June 2023

CIN: L65923PN2007PLC130075

Regd. Office: Bajaj Auto Limited Complex, Mumbai-Pune Road, Pune - 411 035 Tel: (020) 7157 6064 | Email ID: investors@bajajfinserv.in Website: https://www.bajajfinserv.in/corporate-bajaj-finserv

SHRIRAM FINANCE LIMITED SHRIRAM FINANCE LIMITED (Formerly known as SHRIRAM (Formerly known as SHRIRAM TRANSPORT FINANCE TRANSPORT FINANCE **COMPANY LIMITED) COMPANY LIMITED)** PUBLIC NOTICE PUBLIC NOTICE This is to inform our customers and This is to inform our customers and public at large that our Kailaras Branch located at M.S. Road, Near Dhakad Petrol Pump, Kailaras, Morena, Madhya Pradesh - 476224 will shift to Ground Floor, Shyam

from 11th September, 2023. The Customers are requested to contact the new office premises for their needs.

REGIONAL BUSINESS HEAD

Honda India Power Products Limited CIN: L40103DL2004PLC203950 Read. Office: 409, Tower B, DLF Commercial Complex, Jasola,

Website: www.hondaindiapower.com | Email: ho,legal@hspp.com his notice is published in pursuance to the provisions of the Section 124 of Companies Act, 2013 and IEPF (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules,

claim their dividends as aforementioned. The Company has further uploaded ful details of such shareholders alongwith their respective shareholding on its website

Kindly note that in case the Company does not receive any response to the said Email: investor@masserv.com, Website: www.masserv.com.

For Honda India Power Products Limited

Sunita Ganjoo



Chief- Contracts & MM

(Formerly known as SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LIMITED)

PUBLIC NOTICE

public at large that our Tendukheda Branch located at Ward, No. 10. Gurukripa Restaurant, in front of Mandi, near Mahindra Showroom, Narsinghpur Sagoni, Tendukheda, Narsinghpur, Madhya Pradesh -487337 will shift to First Floor, H. No. Habeli, Ward No. 07, M.S. Road, 1310, Sardar Wallabh Bhai Patel, Ward No. 13, Zone 1 Highway Road, Near Subhash School, Kelaras, Near MLA Banglow, Narsinghpur, Morena, Madhya Pradesh - 476224 Madhya Pradesh - 487337 from 11th

> September.2023. The Customers are requested to contact the new office premises for

REGIONAL BUSINESS HEAD

SHRIRAM

TRANSPORT FINANCE

This is to inform our customers and public at large that our Dibrugarh Branch located at First Floor, Convoy Road, Near All India Radio Centre, Kariyapatti, Dibrugarh, Tinsukia, Assam -786001 will shift to Chiring Gaon, Ward No.5, Essar Petrol Pump, C.R. Building, Milan Nagar, Post Office Dibrugarh, Assam

The Customers are requested to contact the new office premises for

REGIONAL BUSINESS HEAD

SHRIRAM FINANCE LIMITED (Formerly known as SHRIRAM

> COMPANY LIMITED) PUBLIC NOTICE

-786003 from 11th September,2023.

their needs.

June 8, 2023

to its strong operating leverage. "The stock has witnessed a

TPNODL TP NORTHERN ODISHA DISTRIBUTION LIMITED (A Tata Power & Odisha Government Joint Venture)

Regd. Off: Corp Office, Januganj, Remuna Golel, Balasore, Odisha-756019 CIN No.: U40106OR2021SGC035951; Website: www.lpnodl.com NOTICE INVITING TENDER (NIT) June 09, 2023

TP Northern Odisha Distribution Limited invites tender from eligible Bidders for the following: Tender Enquiry No. Work Description Rate Contract for Supply of different Type of LA TPNODL/OT/2023-24/2500000341

TPNODL/OT/2023-24/2500000371 PO for Supply of HV Tan delta measurement kit TPNODL/OT/2023-24/2500000375 | RC for Calibration of Testing Instruments TPNODL/OT/2023-24/2500000376 | RC for Rehabilitation & Waterproofing in various Circle of TPNODL TPNODL/OT/2023-24/2500000379 Rate Contract for Supply of Resin Cast 1P CT with different rating

TPNODL/OT/2023-24/2500000382 Rate Contract for SITC of 33kV O/H M+9 type tower Lines

Rate Contract for Procurement of "LT Air Circuit Breaker 400 Armp" TPNODL/OT/2023-24/2500000383 MSMEs registered in the State of Odisha shall pay tender fee of Rs. 1,000/- including GST. EMD is exempted for MSMEs registered in the State of Odisha for more details like bid due date, EMD, tender fee, bid opening date etc. of the Tenders, please visit Tender section TPNODL website https://tpnodl.com. All tenders will be available on TPNODI

website wie f. from dtd. 12.06.2023. Future communication / corrigendum to tender documents, if any

SHRIRAM

shall be available on website. SHRIRAM

This is to inform our customers and public at large that our Kishtwar **Branch** located at Ground Floor. Opposite K.V. School, Waseer Kund, Near N.H.P.C. Kishtwar, District Doda, Jammu and Kashmir - 182204 will shift to Khasra No. - 2196, First Floor, Lone Market Akhyarabad, Near Kishtwar Bus Stand, Kishtwar,

Doda, Jammu and Kashmir -182204 from 11th September, 2023. The Customers are requested to contact the new office premises for

2016, as amended ("the Rules").

Place: New Delhi

Date: June 08, 2023

financialem.epas.in

their needs.

their needs. **REGIONAL BUSINESS HEAD**

New Delhi-110025

The rules, inter-alia, contain provisions for transfer of all shares, in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years, in the name of Investor Education and Protection Fund. Adhering to the various requirements n the said rules, the Company has sent individual notices to the shareholders on une DB, 2023 at the address registered with the Company, requesting them to at https://www.hondaindiapower.com/investors/dividend-and-iepf

notice from the concerned shareholders by September 09, 2023, the Company shall in compliance with Section 124 of Companies Act, 2013, transfer such shares to IEPF Authority. For any further queries on the subject matter, shareholders may contact Mr. Sharwan Mangla, General Manager, M/s Mas Services Limited, Unit: Honda India Power Products Limited, T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020, Ph:- 011 26387281/82/83, Fax:- 011 26387384,

(Company Secretary/Nodal Officer)



FE BUREAU New Delhi, June 8

issue with the aircraft.

In a message to the passen-

inconvenience," he said.

land the aircraft at a nearby airport rather than continue the journey. Your safety was the Air India dispatched a relief flight at the earliest possible opportunity given the need to obtain insurance and flight

plan approvals, Dogra said, but added that "clearly the duration of delay was long and the

NOTICE is hereby given that the 16th Annual General Meeting ('AGM') of the members

In compliance with the Circulars, electronic copies of the Notice of e-AGM and Annual

1. Company's website:

National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com

Members holding shares in physical mode, who have not Physical Holding

The aforesaid form can be accessed from the website of the

The Company is providing remote e-voting facility ('remote e-voting') to all its

In case of queries, members are requested to write to einward.ris@kfintech.com or call

धौलाना जिला हापड एक किता आबादी की सम्पत्ति जिसका खसरा सं0 508 मि. रकवा 0-253 है. स्थित ग्राम सिखैडा तहसील धौलाना जिला हापड की एकमात्र मालिक काबिज व स्वामिनी है तथा जिसके विषय में एक दीवानी का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद जिसकी मुलवाद सं0 48 सन् 2023 श्रीमति सुरान्ती बनाम विनोद कुमार आदि न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) द्वितीय हापुड की अदालत में विचाराधीन चला आता है तथा जिसमें इस समय दिनांक 11-7-2023 नियत है इसी प्रकार से मेरी व्यवहारणी श्रीमति प्रमोद पत्नी श्री संजय सौलंकी हाल निवासनी ग्राम सिखैडा तहसील धौलाना जिला हापुड एक किता आबादी की सम्पत्ति जिसका खसरा सं0 440मि0 रकबा 0-65334 है0 स्थित ग्राम हाबल तहसील धौलाना जिला हापुड की एकमात्र मालिक काबिज व स्वामिनी है तथा जिसके विषय में भी एक दीवानी का स्थाई निषेधाज्ञा का वाव जिसकी मूलवाद सं0 49 सन् 2023 श्रीमति प्रमोद बनाम विनोद कुमार आदि न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) द्वितीय हापड़ में विचाराधीन चला आता है तथा जिसमें इस समय दिनांक 11-7-2023 नियत है परन्त उपरोक्त वर्णित दोनो आबादियों की सम्पत्ति को साजिशी तरीके से बंधक बताकर "MSTC लिमिटेड दिल्ली- 5" पंजाब नेशनल बैंक मंडल शाखा केन्द्र दक्षिण दिल्ली- 66 के निर्देशानुसार दिनांक 12-6-2023 को नीलाम कर देना चाहती है, जिसके विषय में "फाइनैंशियल एक्सप्रेस" व "जनसत्ता" समाचार पत्र में दिनांक 21-5-2023 को समाचार प्रकाशित किया जा चका है जिसके विषय में सर्व साधारण को मैं अधिवक्ता इस विज्ञापन के माध्यम से अवगत कराता हूँ कि उपरोक्त दोनो सम्पत्ति का मामला उपरोक्त न्यायालय में विचाराधीन है, इस कारण से दौरान वाद इन दोनो सम्पत्तियों को नीलाम व ख़ुर्द बुर्द नहीं किया जा सकता है। अतः कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था उपरोक्त फर्जी व गैरकानूनी नीलामी की कार्यवाही में भाग न ले, अन्यथा वही अपने समस्त हर्जे खर्चे का जिम्मेवार होगा।

> श्रीराम शर्मा एडवोकेट 23, जिला न्यायालय कम्पाउंड हापुड

एनकोर एसेट रिकस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एनकोर एआरसी)

एनकोर एआरसी कॉर्पोरेट कार्यालय का पताः 5वीं मंजिल, प्लॉट नं. 137, सेक्टर 44, गुरुग्राम-122002, हरियाणा

ई-नीलामी बिक्री सूचना

earc *

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई—नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्दवारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणियों एवं गारंटरों को नोटिस दिया जाता है कि ऋण खाते में बकाया देय राशि को स्रक्षित रखने के लिए नीचे वर्णित अचल संपत्ति को एनकोर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को गिरवीध्वार्ज किया गया है,एईआरसी एफपीआई–001–न्यास ("सिक्योर्ड क्रेडिटर") के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में काम कर रही है, जिसका प्रतीकात्मक कब्जा सिक्योर्ड क्रेडिटर के अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है,जिसको स्वर्गीय श्री राकेश कुमार (मृतक के बाद से) अपने कानूनी उत्तराधिकारी (उधारकर्ता) और श्रीमती अनीता (सह–उधारकर्ता) के माध्यम से,दिनांक 18.05.2023 के अनुसार रु. 23,20,211/- (केवल तेईस लाख बीस हजार दो सी ग्यारह **रुपये)** एवं 18.05.2023 से वसूली तक,सविदात्मक दर पर भविष्यगत ब्याज, शूल्क और लागत की वसूली के लिए 28.03.2023 को ''जैसा है जहां है'', ''जो है जैसा है'' और ''जो कुछ भी है'' के आधार पर सभी ज्ञात और अज्ञात भारों के साथ बेचा जाएगा।

अचल प्रतिभूति संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी
राजस्व एस्टेट, निकट धर्म वाटिका, फ्रेंड्स कॉलोनी, वार्ड संख्या 05,	₹.	₹.
सोहना तहसीलः सोहना, जिलाः गुड़गांव हरियाणा में स्थित खेवट/खाता	30,00,000 / -	3,00,000/-
सं. 835 / 896 रेक्ट सं. 187 किला नंबर 19 / 2 / 1 (1-5) 22 / 2(4-0)		
किता 2 रकवा 5 कनाल 5 मरला आराजी 4 / 105 भाग बकादर 0 कनाल		
4 मरला यानी 120 वर्ग गज वसीका संख्या 5625 दिनांक 07/01/2019		
और म्यूटेशन संख्या 26172 दिनांक 24/01/2019 में शामिल संपत्ति।		
चौहद्दी द्वारा घिरा है : पूर्व—22 फीट रोड धवन का मकान , पश्चिम—		
22 फीट सड़क और 6 फीट चौड़ाई का आम रास्ता , उत्तर–47 फीट		
रोड, चुन्नी लाल का मकान , दक्षिण–47 फीट दिलीप सिंह का घर।		- 1

विस्तृत नियम और शर्तों के लिए कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी http://www.encorearc.com/ में दिर गए लिंक को देखें। किसी भी स्पष्टीकरण/सचना के लिए इच्छक पक्ष सरक्षित लेनदार के मोबाइल नं. 9873181249 पर संपर्क कर सकत हैं या sachin.kumar@encorearc.com पर ई-मेल करें।

दिनांकः 08.06.2023 स्थान : गुड़गांव अधिकृत अधिकारी एनकोर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

चालामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड

दिल्ली-110005, कॉन्टैक्ट नंबर : श्री सुधीर तोमर, मोबाइल नंबर 9818460101

खाता संख्या तथा कर्जदार,

सह-कर्जदार, बंधकदाताओं का नाम

ऋण खाता सं. X0HEDHE00001356371

एच नंबर 2/368, प्रथम तल, सूभाष नगर, टैगोर

एच नंबर 2 / 368, प्रथम तल, सभाष नगर, टैगोर

एच नंबर 2/368, प्रथम तल, सूभाष नगर, टैगोर

1. राजेश आनंद

2. ब्रज लाल आनंद

की जा रही है।

गार्डन नर्ड दिल्ली- 110027

गार्डन, नई दिल्ली– 110027

कार्पोरेट कार्यालय : नंबर 2, 'डेयर हाउस' प्रथम तल, एन.एस.सी. बोस रोड, चेन्नई-600

001. शाखा कार्यालय : प्रथम एवं द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 6, मेन पूसा रोड, करोल बाग, नई

विषय : नियम ८(६) के तहत नीलामी सचना दिनांकित 02-06-2023 का प्रत्याहरण-

ऋण खाता सं. X0HEDHE00001356371

एतदद्वारा यह सुचित किया जाता है कि उपरोक्त ऋण खाते के संबंध में नियम 8(6) के तहत दिनां 02-06-2023 को जारी की गई नीलामी सूचना वापस ली जाती है। यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा वि

उक्त सूचना चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड के सरफासी ऐक्ट, 2002 के तहत प्रतिभूत

लेनदार के तौर पर नई नीलामी सूचना जारी करने के अधिकार को प्रतिकूल प्रभावित किए बिना प्रत्याहरित

फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

सम्पत्ति / सम्पत्तियों का वर्णन

सम्पत्ति परिमाप 100 वर्ग गज, बिल्टअप एरिया 810 व

फीट, सम्पत्ति सं. 2/368, भू तल एवं प्रथम तल, ब्लॉक-

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, चोलामंडलम

इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

सुभाष नगर, तिहाड़–1, नई दिल्ली

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्धधोषणा

(धारा 82 सीआरपीसी)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त आरोपी संदीप सल्जा, पुत्र रवर्गीय ज्ञानचंद, निवासी सी-27, शिव राम पार्क नामलोई, दिल्ली, ने EX 103/2021, घारा 12 डीवी एक्ट, पुलिस धाना निहाल विहार, दिल्ली, के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया यया है कि उक्त अभियुक्त **संदीप सलूजा**, मिल नहीं रहा और मुझे समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया गया है की उक्त अभियुक्त संदीप सलूजा, फरार हो गया हैं (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)।

इसलिए इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है की उक्त अभियुक्त संदीप सलूजा, केस EX 103 / 2021, धारा 12 डीवी एक्ट, पुलिस थाना निहाल विहार, दिल्ली, से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष या मेरे समक्ष उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 25.08.2023 को या उससे पहले

आदेशानुसार आकाक्षा गौतम, महानगर दण्डाधिकारी. महिला कोर्ट. DP/6220/OD/2023

तास एजारी कोर्ट, दिल्ली

होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स लिभिटेड CIN: L40103DL2004PLC203950

पंजीकृत कार्यालयः 409, टॉवर बी, डीएलएफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, जसोला, नई दिल्ली–110025 वेबसाइटः www.hondaindiapower.com, ईमेलः ho.legal@hspp.com

यह नोटिस कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 और आईईपीएफ (लेखांकन, लेखापरीक्षण, अंतरप और वापसी) नियमावली, 2016, संशोधित अनुसार (''नियमावली'') के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित

नियमों में, अन्य बातों के साथ–साथ, सभी शेयरों के अंतरण के प्रावधान शामिल हैं, जिनके संबंध में निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के नाम पर लगातार सात वर्षों तक लाभांश का भूगतान दावा नहीं किया गया है। उक्त नियमावली के तहत विभिन्न आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, कंपनी ने शेयरधारकों को 08 जून, 2023 को कंपनी के साथ पंजीकृत उनके पते पर अलग–अलग नोटिस भेजे हैं, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि वे उपरोक्तानुसार अपने लाभांश का दावा करें। कंपनी ने आगे ऐसे शेयरधारकों का पूरा विवरण उनकी संबंधित शेयरधारिता के साध अपनी वेबसाइट https://www.hondaindiapower.com/investors/dividend-and-iepf

पर अपलोड किया है। कृपया ध्यान दें कि यदि कंपनी को 09 सितंबर, 2023 तक संबंधित शेयरधारकों से उक्त नोटिर का कोई जवाब नहीं मिलता है, तो कंपनी जो है वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 व अनुपालन में ऐसे शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित कर देगी। विषयगत सामग्री पर किसी भी अन्य प्रश्न के लिए, शेयरधारक श्री श्रवण मंगला, महाप्रबंधक, मैसर्स मास सर्विसेज लिमिटेड, यूनिटः होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, टी–34, द्वितीय तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-।।, नई दिल्ली-110020, फोनः- 011 26387281/82/83, फैक्सः- 011 26387384 ईमेल:- investor@masserv.com, वेबसाइट:- www.masserv.com से संपर्क कर सकते हैं कृते होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 08 जून, 2023

(Court Matter)

सुनीता गंजू (कंपनी सचिव / नोडल अधिकारी)

द्वितीय तल. जीएमटीटी बिल्डिंग डी-7, सेक्टर 3, नोएडा (उ.प्र.) 201301

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK

प्राधिकृत अधिकारी

इन्टेक कैपिटल लिमिटेड

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) [नियम 8(1)]

नबिक. अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत उज्जीवन स्माल फाइनेंस बै लिमिटेड का अधिकत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कर्जदार(रों)/जमानती(यों) से सचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर नीचे उल्लिखित राशि का पुनर्भगतान करने को कहते हुए मांग सुचन

कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधककर्ता के राशि के पुनर्भुगतान में असफल होने के कारण, एतद्वारा कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधककर्ता को तथा जनसामान्य को सूचना र्द जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति पर प्रत्येक खाते के सम्मुख उल्लिखित तिथि पर सांकेतिक कब्जा कर लिया है। प्रतिभत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की

विशेष रूप से कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधककर्ता को तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति वे

साथ कोई संव्यवहार यहां नीचे प्रत्येक खाते के सम्मख वर्णित राशियों तथा ब्याज एवं अन्य प्रभारों/व्ययों के लिए उज्जीवन स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभा

कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधककर्ता का नाम	अचल सम्पत्ति	मांग सूचना की तिथि तथा	मांग सूचना के
	का विवरण	कब्जा करने की तिथि	अनुसार राशि
1. मो. फैजान, पुत्र शौकत अली निवासी 6741, गली चक्की वाली, अहाता किदरा, बाड़ा हिंदू राव, दिल्ली, जीपीओ, उत्तरी दिल्ली– 110006, 2. रेहाना बेगम पत्नी शौकत अली, 6741, गली चक्की वाली, अहाता किदारा, बाड़ा हिंदू राव, दिल्ली, जीपीओ, उत्तरी दिल्ली –110006, और 3. एस आर इंडस्ट्रीज, 8365, जी/एफ, मॉडल बस्ती, फिल्मिस्तान सिनेमा हॉल के पास, दिल्ली, 110006, ऋण खाता संख्या 2211210180000007 में	6741, वार्ड नं. XIV का समस्त भाग, क्षेत्रफलम म अहाता किदारा, बाड़ा हिन्दृ पश्चिम : गली, उत्तर : स	कब्जे की तिथि : 06.06.2023 ाप 44 वर्ग गज, गली चक्की वाली, रू राव, दिल्ली। पूर्व : सम्पत्ति सं. 684,	रु. 31,57,045.54∕- तिथि 28-06-2022 तक तथा उस पर ब्याज

स्थान : दिल्ली, एनसीआर दिनांक : 09-06-2023

र्शन्ट श्रीक होम फायलेन्स लिमिटेड Cent Bank Home Finance Limited शाखा कार्यालयः ३ई / 10, मेजेनाइन तल, नव दुर्गा भवन झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली **–11005**5 फोन नंबर: 011 - 35000439 सीआईएनः U65922MP1991PLC006427

परिशिष्ट— IV क (नियम 8 (6) निविदा सह नीलामी बिक्री सूचन

प्रतिभृतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परन्तूक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृतिहित का प्रवेतन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेत् नीलामी विक्रय नोटिस आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और ऋणियों / जमानतदारों को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभति लेनदार के पास गिरवी है, का कब्जा प्रतिभृति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर निम्न वर्णित ऋणी व जमानतदारों से सेन्ट बैंक होम फायनेंस लिमिटेड, प्रतिभूति लेनदार की वसूली हेतू नीलाम किया जाएगा। प्रतिभृति–दाता, आरक्षित मृल्य व अग्रिम धन राशि का विवरण निम्न तालिका अनुसार होगा।

क्र.	ऋणी नाम व खाता संख्या	संपत्तियो का विवरण	डिमांड नोटिस की तिथि को बकाया राशि (रू.)		कब्जे की तिथि	आरक्षित मूल्य (रू.)	अग्रिम धन जमा नीलामी
						नीलामी तिथि	तिथि (रु.) 10%
1.	श्री सुभ नारायण	के—105ए, भूतल, पटेल नगर—III, गांव—	₹5. 14,53,756	19.04.2021	13.06.2022	12,00,000/-	1,20,000.00
	और श्रीमती कमल	वाल्मीकि कुंज, गाजियाबाद, उ.प्र.	+				
	कांति देवी	–201001, संपत्ति की सीमाएं: पूर्वः सड़क 4	ब्याज एवं सभी		(भौतिक)	26.06.2023	
	ऋण खाता संख्याः	मीटर चौड़ी, पश्चिमः मकान संख्या	अन्य खर्च		(भाराक)	20.00.2020	
	00603010000100	के—106, उत्तरः सड़क 7.79 मीटर चौड़ी,					
		दक्षिणः मकान संख्या १०८					

नियम व शर्ते: (1) नीलामी जहाँ है, जैसा है, और जो कुछ भी है के आधार पर की जा रही है। (2). प्रतिभूति सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं नीलाम किया जाएगा। **(3)**. इच्छुक क्रेता / बोलीदाता को डिमाण्ड ड्राफ्ट (राष्ट्रीयकृत बैंक) / आरटीजीएस / ऑनलाईन ट्रांसफर के माध्यम से धरोहर राशि (ईएमडी) राशि (आरक्षित मुल्य के 10% से कम नहीं) के साथ एक बंद लिफाफे में निधारित निविदा फार्म में अपनी निविदा प्रस्तुत करनी होगी। सेन्ट बैंक होम फायनेंस लिमिटेड, दिल्ली शाखा के उपरोक्त पते पर 26.06.2023 को दोपहर 3.30 बजे तक या पहले सेन्ट बैंक होने फायनेंस लिमिटेड, दिल्ली **शाखा** के पक्ष में जमा करानी होगी। **(4)**. सीलबंद लिफाफे को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **दिल्ली शाखा** में पात्र / उपलब्ध इच्छ्च बोलीदाताओं की उपस्थिति में **दिनांक 26.06.2023 को अपराह्न 4.00 बजे तक** खोला जायेगा। जिन्होनें नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए डिमाण्ड ड्राफ्ट (राष्ट्रीयकृत बैंक) / आरटीजीएस / ऑनलाईन ट्रांसफर के माध्यम से ईएमडी राशि जमा करवाई है। **(5)**. प्राधिकत अधिकारी की उत्तम जानकरी के अनुसार सम्पत्ति पर किसी प्रकार का कोई प्रभार नहीं है। फिर भी इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले प्रभारों, सीमाओं, सम्पत्ति के शीर्षक से सम्बंधित स्वय कि स्वतन्त्र जानकारी तथा निरीक्षण करके स्वंय को संतष्ट करना चाहिए। कम्पनी किसी भी प्रभार तथा सम्पत्ति पर बकाया जो कि नीलामी दिनांक के बाद में कम्पनी की जानकारी में आता है तो कम्पनी उत्तरदायी नहीं होगी। प्राधिकत अधिकारी / प्रतिभति लेनदार किसी भी तीसरे पक्ष के दावों / अधिकारों / बकायों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। (6). बोली जमा कराने से पहले सम्पत्ति और सीमांकन के बारे में निरीक्षण करना और संतुष्टि करना बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी। नीलामी के लिए रखी गई संपत्ति के निरीक्षण में रूचि रखने वाले बोलीदाताओं को दिनांक 23.06.2023, दोपहर 12.00 **बजे से शाम 4.00 बजे** के बीच अनुमति होगी। **(7)**. सफल बोलीदाता / उच्चतम बोली लगाने वाले की धरोहर राशि आंशिक बिक्री विचार के लिए रखा जाएगा और असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। धरोहर राशि जमा करने पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। विक्रय की पृष्टि उस क्रेता के पक्ष में की जाएगी जिसके द्वारा उच्चतम बोली लगाई जायेगी। जो प्राधिकृत अधिकारी को दी गई है एवं प्रतिभूत लेनदार द्वारा जिसकी पुष्टि की जाएगी। उच्चतम बोली प्रतिभूति लेनदार / प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन के अधीन होगी। **(8)**. सफल बोली लगाने वालों को बिक्री मूल्य का 25% (ईएमडी भुगतान सहित) उसी दिन अथवा आगामी 24 घण्टे के पूर्व जमा करवाना होगा, प्राधिकृत अधिकारी को शेष 75% सुरक्षित लेनदार द्वारा विक्रय की पृष्टि के 15 दिवस के भीतर करवायेगा तथा यदि बोलीदाता शेष राशि जमा करवाने में चूक करता है तो कम्पनी पूर्व में जमा राशि को जब्त कर लेगी तथा कम्पनी द्वारा सम्पत्ति को पुनः बेच दिया जायेगा। (9). क्रेता स्टाम्प ड्यूटी / पंजीकरण शुल्के / अन्य खर्चे आदि वैधानिक बकाया कर समायोजन खर्चे आदि स्वंय के द्वारा या अन्य के द्वारा किये गये हो को स्वयं को वहन करना होगा। (10). प्राधिकत अधिकारी सर्वोच्च प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। प्राधिकत अधिकारी को किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने का बिना किसी कारण बताये नीलामी रदद करने का पूर्ण अधिकार होगा। (11). सरफेसी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत नियम 8(6) के तहत ऋणी / जमानतदार / सम्पत्ति को भी उपरोक्त ऋण के संदर्भ में उपरोक्त वर्णित संपत्ति की बिक्री के लिए सचित किया जाता है। दिनांकः 08.06.2023. स्थानः दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारीः सेन्ट बैंक होम फायनेंस लिमिटेड

आर्कोटेक लिमिटेड CIN: L34300HR1981PLC012151

पंजी, कार्यालय : 181, सेक्टर-3, औद्योगिक विकास केंद्र, बावल, जिला-रेवाडी, हरियाणा 123501 वेबसाइट : www.arcotech.in, ईमेल: contact@arcotech.in दूरभाष: 0128-4264160

31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (स्टेंडअलोन) के विवरण के अंश (लाख रुपये में, प्रति शेयर डेटा को छोडकर तिमाही समाप्त वर्ष समाप्त 204 विवरण तिमाही समाप्त तिमाही समाप्त वर्ष समाप्त 31.03.2023 31.03.2023 31.12.2022 31.03.2022 31.03.2022 (अंकेक्षित) (अंकेक्षित) (अनअंकेक्षित) (अकेशित) (अंकेक्षित) सवालन से कुल आय (गुद्ध) 2,832.36 7,473.20 2 अवधि के लिए शुद्ध लाम / (हानि) (कर से पहले असाधारण और या असाधारण मदी) (9470.60)(861.92)(5.768.84)(12.014.99)(9,046.75 a. कर के पूर्व अवधि के लिए सुद्ध लाम (हानि) (असाधारण और / या असाधारण नदों के बाद) (9470.60) (861.92)(5,768.84)(12,014.99) (9,046,75 4. कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाग / (हानि) (6,008.92) (असाधारण और / या असाधारण मदों के बात) (5,671.34) (861.92)(3.786.67)(8,215.73) 5 जनायि के लिए न्एल व्यापक आव इस अवस्ति के लिए लाम / (हानि)(कर के बाद) और अन्य आपक आम (भर के बाद) शामिल ही (5670.98) (861.92)(3,792.92)(8215,37)(6,013.87) ह. इविवटी शयर पूर्वी 2100 2100 2100 2100 2100 7: अन्य इक्विटी (8040.19) 175.18 8 प्रति शेयर जाय (रू.2/-प्रत्येक) (5.40)(0.82)(3.61)(7.82)(5.72) (5.40) (3.61)(7.82)तरल (रु.) (5.72)

स्परीवत वित्तीय परिणामी की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई. और निदेशक मंडल द्वारा 08 जून, 2023 का आयोजित उनकी बैठक अनुमादित किया गया। . उपरांगल जिंदरण सेवी (एलओडीआर) विनियम 2015 वं विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेजी के साथ दायर विभावी और वार्षिक विशी

परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। तिमाडी आर वार्षिक वितीय परिणामों का नापूर्ण प्रारूप स्टार

्रक्सचेज की वेबसाईट www.bseindia.com और www.nseindia.com तथा कम्पनी की वेबासाइट www.arcotech.in पर भी उपलब्ध है। निदेशक मंडल के आदेश से आकॉटेक लिमिटेड के लिए

हस्ता/-राचानाथ पटनायक पर्णकालिक निदंशक Din: 01189370

तिथि : 09.06.2023

दाक्षण रलव

एम-टीआरडी-29- आई-ओटी-2023-24-14,15 दिनांक. 05.06.2023

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से, मंडल रेल प्रबंधक / कर्षण वितरण शाखा, चेन्नई मंडल,

दक्षिण रेलवे, चेन्नई-3 द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए अनुभवी ठेकेदारों से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित

Follow us on : witter.com/GMSRailways

इन्टेक कैपिटल लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : 708, मंजूषा बिल्डिंग, 57, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

परिशिष्ट 4 (नियम 8(2) देखें) कब्जा सूचना

में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली

2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना दिनांकित 25-06-2019 जारी की थी,

जिसमें कर्जदार मैसर्स बेलपोली मोल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड (कर्जदार) इसके

निदेशक, स्व. श्री संजीव कपूर, स्व. श्री संजीव कपूर के माध्यम से

(गारंटर / बंधकदाता), उनके एलआर'स श्रीमती सरिता कपूर के माध्यम से

(गारंटर / बंधकदाता) से सूचना में वर्णित अनुसार 30-06-2019 तक बकाया राशि

क्त. 49,42,20,715 / – (रूपए उन्चास करोड़ बयालीस लाख बीस हजार सात सौ

पंद्रह मात्र) का भूगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर

कर्जदार / बंधकदाता / गारंटर उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतदुद्वारा कर्जदार / बंधकदाता / गारंटरों और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि

अधोहस्ताक्षरी ने इन्टेक कैपिटल लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में,

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त

अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा 05 जून, 2023 को प्राप्त कर

विशेष रूप से कर्जदार / बंधकदाता को तथा सामान्य रूप से जनसाधारण को इस

संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतू सावधान किया जाता है और संपत्ति

के संबंध में कोई भी संव्यवहार इन्टेक कैपिटल लिमिटेड की 30-06-2019 तक

बकाया राशि रू. 49,42,20,715 / – (रूपए उन्चास करोड़ बयालीस लाख बीस

हजार सात सौ पंद्रह मात्र) का भुगतान उसके पूर्ण भुगतान तक ब्याज तथा खर्चों

कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए,

उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान

फ्लैट नंबर जीएफ–2, भू तल, टावर –ए, पर्ल्स गेटवे, प्लॉट नंबर डी–8ए,

सेक्टर-44, नोएडा उत्तर प्रदेश स्थित आवासीय/कॉमर्शियल सम्पत्ति

सहित करने के बाद ही किया जा सकता है।

भिम / भवन / स्टक्चर के सभी अंश एवं खंड।

की ओर आकृष्ट किया जाता है।

तिथि: 05-06-2023

स्थान : नोएडा, उत्तर प्रदेश

अंतिम तिथि और समय

(15:00 बजे)

(15:00 बजे)

03/07/2023

(15:00 बजे)

96.46.815.08

2,34.88.201.00

1.58,53,944.00

करते हैं, अधिक जानकारी के लिए कृपया www.ireps.gov.in देखें।

निविदा संख्या / कार्य का नाम

आर "तीन वर्ष की अवधि के लिए एमएएस–जीडीआर और

वीएलसीवाई–एमएसबी–वीएम वर्गों में सॉफ्टवेयर, आरसीसी

उपकरण और आरटीयू के साथ पूर्ण स्काडा प्रणाली क

नेविदा संख्या एम–टीआरडी–29–1–0टी–2023–24–1

२ वर्ष की अवधि के लिए पीएसआई डिपो के 6 नग 25

केवी ट्रैक्शन सिस्टम की पीएसआई रखरखाव गतिविधियो

निविदा संख्या एम–टीआरडी–29–1–0टी–2023–24–1

गैर-प्रमुख गतिविधियों के रखरखाव की आउटसोर्सिंग।

करने की मांग की गई थी।

लिया है।

2 वर्ष की अवधि के लिए 8 नग ओएचई डिपो की ओएचई

व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध।

सेन्टल बैंक ऑफ इंडिया र्ड-नीलामी तीसरा तत्व, सीरवजी भवत, ब/५४, डी.बी. विक्री संघना Central Bank of India गुप्ता रोह, करोलवाग, नई दिल्ली-05 (सरकेंसी खांबिक्बिस 2002 के सकत)

बरिशिष्ट - IV - A |नियम 8(6) एवं 9(1) का प्रावधान देखें| अधल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सुबना प्रतिभृत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिमृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत ई-नीलामी विकी सूचना। एतदहारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जवार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास

वंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका रचनात्मक/भैतिक कव्जा सेन्द्रल बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, नीचे वर्णित कर्जदार(रीं) तथा जमानती(यीं) से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बकाये की वसुली हेत् उसकी बिकी 26.06.2023 को "जहाँ है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर की जायेगी। आरक्षित मुल्य तथा जमा धरोहर राशि (ईएमडी) सम्बद्ध सम्पत्तियों के विवरणों के सम्मुख प्रदर्शित है।

華.	शास्त्रा का	06 2023	खाते का	सम्पत्ति का विवरण तथा स्वामी का नाम	र्माण सुबना की तिथि एवं करत की तिथि	सः लाख में
H.	नाम	ज्ञीयकृत प्राधिकारी/शा.प्र.	नाम		वकाण राशि (इ. ताख में) एवं प्रमण	हेर्स्साति महिला हरिक
1.	ओखला <mark>नई दिल्ली</mark>	श्री अजय शर्मा मो.नं.: 9999917125	श्री विशाल और श्रीमती आशा देवी	संपत्ति संख्या आरजेड—16ए / 15—डी / 2 (खसरा संख्या 392 में से), द्वितीय तल (दाईं ओर) छताधिकारों के बिना एक बाइक पार्किंग के साथ ग्राम नंगल राया, पश्चिम सागरपुर, नई दिल्ली—110046 में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 65 वर्ग गज है जो श्री विशाल और श्रीमती आशा देवी के नाम पर प्रविष्ट है।	28.06.2021 को + उसके बाद	₹ 19.25 लाख ₹ 1.93 लाख ₹ 0.20 लाख
2.	ओखला नई दिल्ली	श्री अजय शर्मा मो.नं.: 9999917125	श्री नजर सिंह	संपत्ति नंबर 61 और 62 में से छताधिकारों के साथ तृतीय तल का फ्लैट, जो खसरा नंबर 9/14, गली नं. 20, ग्राम चौखंडी दिल्ली राज्य कॉलोनी के क्षेत्र में स्थित है, जिसे संतगढ़ एक्सटेंशन (पूर्व), नई दिल्ली—110018 के रूप में जाना जाता है, जिसकी माप 50 वर्ग गज है जो श्री नजर सिंह पुत्र श्री मंजीत सिंह के नाम पर प्रविष्ट है।	11.05.2021 को + उसके बाद ब्याज	₹ 15.19 लाख ₹ 1.52 लाख ₹ 0.20 लाख
3.	गुलमोहर पार्क नई दिल्ली	मि. स्नेह मीरचंदानी मो.नं: 8448296394	श्री बिजी रेगी	तृतीय तल पर स्थित आवासीय फ्लैट, प्लॉट नंबर आरजेड–750, गली नंबर 23, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110019 का क्षेत्रफल 900 वर्ग फुट जो श्री बिजी रेगी के नाम पर प्रविष्ट है।	रु. 38,22,087/- 12.02.2020 को + उसके बाद ब्याज	₹ 31.00 लाख ₹ 3.10 लाख ₹ 0.30 लाख
4.	गुलमोहर पार्क नई दिल्ली	मि. स्नेह मीरचंदानी मो.नं.: 8448296394	श्री सिगी चरिवूपरमपिल मैथ्यू	ऊपरी भू तल (पीछे की तरफ) पर आवासीय फ्लैट, प्लॉट नंबर—आरजेड—20 / 26, गली नंबर 26, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली—110019 पर स्थित फ्लैट का आवृत्त क्षेत्र माप 450 वर्ग फुट है जो श्री सिगी चरिवूपरमपिल मैथ्यू के नाम पर प्रविष्ट है।	12.03.2020 को + उसके बाद	₹ 16.00 लाख ₹ 1.60 लाख ₹ 0.20 लाख
5.	साउथ एक्स. नई दिल्ली	श्री अजय शर्मा मो.नं.: 9999917125	मैसर्स रियल्म मीडिया सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	प्रथम तल संपत्ति संख्या—1513, खसरा नंबर 346/2, वजीरनगर, कोटला मुबारकपुर, भीष्म पितामह मार्ग, नई दिल्ली—110003 में स्थित है, जिसकी माप 135 वर्ग गज अर्थात् 1215 वर्ग फुट है, जो मैसर्स धर्मवीर कंस्ट्रक्शन के नाम पर प्रविष्ट है।	+ उसके बाद	* * **
6.	साउथ एक्स. नई दिल्ली	श्री अजय शर्मा मो.नं.: 9999917125	मैसर्स रियल्म मीडिया सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	द्वितीय तल संपत्ति संख्या—1513, खसरा संख्या 346/2, वजीरनगर, कोटला मुबारकपुर, भीष्म पितामह मार्ग, नई दिल्ली—110003 में स्थित है, जिसकी माप 135 वर्ग गज अर्थात् 1215 वर्ग फुट है, जो मैसर्स धर्मवीर कंस्ट्रक्शन के नाम पर प्रविष्ट है।	15.02.2019 को + उसके बाद	₹ 74.50 लाख ₹ 7.45 लाख ₹ 1.00 लाख
7.	साउथ एक्स. नई दिल्ली	श्री अजय शर्मा मो.नं: 9999917125	मैसर्स रियल्म मीडिया सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	तृतीय तल टेरेस अधिकार के साथ संपत्ति संख्या—1513, खसरा संख्या 346/2, वजीरनगर, कोटला मुबारकपुर, भीष्म पितामह मार्ग, नई दिल्ली—110003 में स्थित है, जिसकी माप 135 वर्ग गज अर्थात् 1215 वर्ग फुट है, जो मैसर्स धर्मवीर कंस्ट्रक्शन के नाम पर प्रविष्ट है।	रु. 3,16,04,320/- 15.02.2019 को + उसके बाद ब्याज	₹ 79.63 लाख ₹ 7.96 लाख ₹ 1.00 लाख
8,	जसोला नई दिल्ली	श्री अशोक कुमार मो.नं.: 8447633471	श्री राघवेंद्र सिंह और श्रीमती सीमा सिंह	गोविंदपुरी, कालकाजी, नई दिल्ली — 110019 में स्थित खसरा नंबर 93 में से गली नंबर 8 में स्थित संपत्ति संख्या 929 के टेरेन्स अधिकारों के बिना संपूर्ण प्रथम तल की आवासीय संपत्ति, जिसका क्षेत्रफल 60 वर्ग गज है और जो श्री राघवेंद्र सिंह और श्रीमती सीमा सिंह के नाम पर प्रविष्ट है।	02.09.2020 को + उसके बाद	र 15.39 लाख र 1.54 लाख र 0.20 लाख
-		of			10.00.000	C-0-114 AA

र्ज-मीटामी की दिवित 26.06.2023, समयः 12:00 बजे दोपहर से 04:00 बजे सार्य तक 10 मिनट के स्वतः विस्तार सर्वित ईएमडी तथा दस्ताबेज (ऑनलाइन) जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समयः 25.06.2023 को 4:00 बजे अप. तक।

फ्लैट नंबर- सी-43, प्रथम तल (छताधिकार के बिनां), गली

नंबर-4, नॉर्थ छज्जूपुर, शाहदरा, दिल्ली - 110094 मे

स्थित. जिसकी माप 44 वर्ग गज या 396 वर्ग फुट है और

जो श्री मनीष पुत्र श्री डोरी लाल के नाम पर प्रविष्ट है।

संविदाकार वेबसाइटः https://www.mstcecommerce.com पर पंजीकरण करेंगे तथा केवाईसी दस्तावेज जमा करेंगे और सेवा प्रदाता द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के बाद एनईएफटी/आरटीजीएस/अन्तरण के माध्यम से ईएमडी ग्लोबल ईएमडी वालेट में तमा की जानी है (https://www.mstcecommerce.com से चालान के सुजन के बाद). नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता "https://www.mstcecommerce.com" के माध्यम से संचालित की जायेगी। विस्तृत नियम एवं शर्तो के लिए प्रतिभृत लेनदार की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in अथवा नीलामी प्लेटफॉर्म (https://mstcecommerce.com) में प्रावधानित लिंक देखें। हेल्पलाइन नं.033-22901004.

सरफैसी अधिनियम, २००२ के नियम ६(६) एवं ९(१) के तहत वैधानिक १५ दिनों की बिक्री सूचना कर्जवार/जमानतियो/बंघककराओं को एतदहारा ई-नीलामी की तिथि से पूर्व अधतन स्थान एवं अनुषंगी स्थागे सहित उपर्युक्त राभि क्षदा करने के लिये अधिमुधित किया जाता है जिसमें असफल होने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिकी की जायेगी और शेष वकाया, यदि कोई हो, ज्याज तथा लागतों सहित वसूल किया जायेगा। दिनाक: 09.06.2023

प्राधिकृत अधिकारी सेन्ट्रल बेंक ऑफ इंडिया

16.11.2021 ₹ 13.65 冊曜

र 1.36 साख

₹ 0.20 लाख

19.02.2020 को

+ उसके बाद

सीटन हाउसिंग फाइनेस लिमिटेड कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नं. 492, उद्योग विहार, फेज-3, गुरुग्राम, हरियाणा-122016 पंजीकृत कार्यालयः 5वीं मंजिल, कुंदन भवन, आजादपुर कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, आजादपुर, नई दिल्ली-110033

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत। अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (कथित अधिनियम) के तहत सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी है। प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में अधिकृत प्राधिकारी ने उन्हें जारी सम्बन्धित मांग सूचना(ओं) में उल्लिखित राशियों का निम्नलिखित कर्जदार(रों) ('कथित कर्जदार(रों)) राशि का पुनर्भुगतान करने का आह्वान करते हुए धार 13(2) के तहत मांग सूचना दिनांक 23.05.2023 जारी की जो नीचे भी उल्लिखित है। उपर्युक्त के सम्बन्ध में एतद्वारा कथित कर्जदार(रों) से इस सुचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर रु. 14,40,098/-(रुपये चौदह लाख चालीस हजार अट्ठानबे मात्र) का नीचे उल्लिखित राशि तथा कथित कर्जदार(रोंम) द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/प्रलेखनों के साथपठित ऋण अनुबंध के तहत देय नीचे उल्लिखित तिथि से भुगतान की तिथि तक मांग सूचना में उल्लिखित भावी ब्याज का भुगतान करने को कहा जाता है। ऋण के बकाये की प्रतिभृति के रूप में क्रमशः कथित कर्जदार(रों) द्वारा सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास निम्नलिखित आस्तियां बंधक रखी गयी हैं।

कर्जदार(रों)/जमानती(यों)	मांग सूचना तिथि:	प्रतिभूत आस्ति (अचल सम्पत्ति)
के नाम	23.05.23	का विवरण
धीरेंद्र कुमार यादव पुत्र चंद्रबली यादव (कर्जदार) प्रियंका यादव पत्नी धीरेंद्र कुमार यादव (सह-कर्जदार)	राशि रु. 14,40,098/– (रुपये चौदह लाख चालीस हजार अट्डानबे मात्र) तिथि 10 मई, 2023 तक	प्लॉट नंबरः 1/3345, ए-1, तीसरी मंजिल, 40 वर्ग गज (33.44 वर्ग मीटर), खसरा नंबर 572, गांव सिकंदरपुर में स्थित, राम नगर की आबादी में, एक्सटेंशन मंडोली रोड, शाहदरा, शाहदरा एस.ओ., पूर्वी दिल्ली, दिल्ली (भारत) पिनकोड -110032। पूर्व-अन्य संपत्ति, पश्चिम-सड़क, उत्तर अन्य संपत्ति, दक्षिण-संपत्ति संख्या-1 /3345-ए

यदि उक्त कर्जदार सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को पूर्वोक्त भुगतान करने में असफल हो जाते हैं, तो सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड अधिनियम की धारा 13(4) और लागु नियमों के तहत उपरोक्त प्रतिभृत संपत्तियों के खिलाफ लागत और परिणाम के रूप में पूरी तरह से उक्त कर्जदारों के जोखिम पर कार्रवाई करेगा। उक्त कर्जदारों को अधिनियम के तहत सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पूट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त संपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है. अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड के लिए

दिनांक: 08.05.23 सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

मोबाईलः 7625079140, सीआईएनः CIN:L85110KA1987PLC008699

कन फिन हम्सि लि. 59-60, प्रथम तल, नीलम बाटा रोड, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा-121001, ईमेल: faridabad@canfinhomes.com,

प्राधिकृत अधिकारी

परिशिष्ट-IV-ए (नियम 8 (6) का प्रावधान देखें

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन

अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की नीलामी बिक्री एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक(कों) तथा गारंटर(रों) को सूचित किया है कि प्रतिभृत क्रेडीटर के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका केनिफनहोम्स लि., एनसीआर फरीदाबाद शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वार रचनात्मक/भौतिक कब्जा किया गया है, की श्रीमती आशा सिंह तथा यशपाल सिंह उस पर आगे के ब्याज तथा चार्जेज के साथ 28.02.2022 को केन फिन होम्स लि. के बकाये रु. 24,62,886/- (रु. चौबीस लाख बासट हजार आठ सौ छियासी मात्र) की वसूली के लिये 12.07.2023 को ''जैसा है जहां है'' ''जैसा है जो भी है'' तथ

आरक्षित मूल्य रु. 25,20,000/- (रु. पच्चीस लाख बीस हजार मात्र) तथा धरोहर राशि भुगतान रु. 2,52,000/- (रु. दो लाख बावन हजार मात्र) होगी।

अचल सम्पत्ति का विवरण

प्लॉट नं. एफ-8350-सी, प्रथम तल, अपना घर सोसायटी, सेक्टर-52, फरीदाबाद, हरियाणा-121005

दक्षिणः प्लॉट नं. 8250-बी, उत्तरः प्लॉट नं. 8250-डी, पूर्वः अन्य सम्पत्ति पश्चिमः रोड

''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी।

बिक्री के विस्तत नियम एवं शर्तें केन फिन होम्स लि. की आधिकारिक वेबसाईर (www.canfinhomes.com) पर दी गई है। कृपया https://www.canfinhomes.com/search Auction.aspx) देखें।

तिथि: 07.06.2023 हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी. स्थानः फरीदाबाद केन फिन होम्स लि

Website:www.tinnatrade.in, E-mail:investor.ttl@tinna.in, Telephone No.:011-49518530

Fax No.:011-26804883 CIN:L51100DL2009PLC186397 NOTICE OF 15TH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY Notice is hereby given that the 15th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the

Tinna Trade Limited is scheduled to be held on Friday, 30th June, 2023 at 12,30 P.M. (IST) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (DAVM) to transact the business, as set out in the Notice convening the said AGM as per the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules framed thereunder read with General Circular Nos. 20/2020 and 10/2022 dated 5th May 2020 and 28" December 2022, respectively, and other relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), without the physical presence of the members at a common venue. The deemed venue for the 15th AGM shall be the Registered Office of the Company. The 15th Annual report for the FY 2022-23, containing the Notice of the 15th AGM of the

company along with its annexures and annual accounts of the company for the Financial Year 2022-23 are sent through electronic mode to those shareholders whose email addresses are registered with the company, Registrar and Transfer Agent (RTA) and Depository Participants (DP). The requirement of sonding physical copies of Annual Report has been dispensed with vide

The e-copy of the notice of the AGM along with Annual Report of the company is available on the website of the company at www.tinnatrade.in and may also be assessed from the relevant section of the website of Bombay Stock Exchange (BSE) at www.bseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

MANNER OF REGISTERING JUPDATING EMAIL ADDRESSES:

Members holding shares in physical form and who have not yet registered/updated their email address are requested to register/ update the same by writing to Alankit assignments Limited (RTA) at: rta@alankit.com along with copy of signed letter mentioning. Name of the shareholder, Folio No., address, no. of shares held along with scanned copy of share certificate (front and back), self-attested copy of PAN card, self-attested copy of Aadhar & copy of cancelled cheque. Members holding shares in dematerialized mode and who have not yet registered Jundated their email address are requested to get their email address registered/updated with their respective Depository participants.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 24th June, 2023 (Saturday) to 30th June, 2023 (Friday) (both days inclusive).

INSTRUCTIONS FOR REMOTE E-VOTING AND E-VOTING DURING AGM

Notice is further given that pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 duly amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by Institute of Company Secretaries of India, as amended from time to time, the company is providing to its members the facility of remote e-voting before the AGM , e-voting during the AGM in respect of the businesses to be transacted at the AGM and for this purpose, the company has appointed NSDL to facilitate voting through electronic means. The detailed instructions for remote e-voting and e-voting at AGM are given in the notice of AGM and also available at the website of NSDL. Members are requested to note the following:

- (a) The remote e-voting shall commence on 27th June, 2023 (Tuesday) at 10.00 a.m. (IST) and shall end on 29th June, 2023 (Thursday) at 5.00 p.m. (IST). The remote e-voting module will be disabled by NSDL thereafter and members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time.
- (b) The voting rights of the members will be in proportion to their share of the paid-up capital of the company as on 23rd June, 2023 (Cut Off date). The facility of remote e-voting shall also be available during the meeting and the members attending, who have not already casted their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right during the meeting. A person whose name is recorded in the Register of members / Register of beneficial owners as on
- (c) Any person who acquires shares or becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 23rd June, 2023, may obtain the login ID and password for a voting by sending a request to NSDL at their email ld: evoting@nsdl.co.in or may contact their toll free number: 1800-1020-990 or 1800 22 44 1020

cut-off date only shall be entitled to avail the facility of e-voting before/during the AGM.

- d) The members who have already cast their vote by remote e-voting prior to the AGM will have right to participate at the AGM but shall not be entitled to cast their votes again during AGM.
- e) The procedure for electronic voting is available in the notice of AGM as well as in the email. sent to the members by NSDL.
- f) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-1020-990 and 1800 22 44 30 or send a request at evoting@nsdl.co.in.
- Ajay Baroota, (Membership no. 3495 & CP no. 3945), Prop. Ajay Baroota & Associates. Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer for providing facility to the members of the Company to scrutinize the voting during the AGM and remote e-voting

FOR TINNA TRADE LIMITED

Place: New Delhi Date: May 25, 2023

process in a fair and transparent manner.

Monika Gupta Company Secretary and compliance officer

www.readwhere.com

स्थानः नइं दिल्ली

तिथि: 08.06.2023

टिप्पणी:





सविता

विहार

नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली

त्यागी

मो.नं.ः

9711167140

और श्रीमती



